

ऑटो पार्ट्स की दुकान पर बेच रहे थे नकली सामान

Publish Date: Wed, 04 Sep 2019 12:22 AM (IST)



फोटो-13 टीवीएस के अधिकारियों ने पुलिस के साथ शहर में की छापेमारी ब्लर्ब- तीन ऑटो पार्ट्स विक्रेताओं के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट में मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, हाथरस : शहर की दुकानों पर नामी कंपनियों के डुप्लीकेट सामान बेचकर लोगों को चपत लगाई जा रही है। कंपनी को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसी शिकायत पर टीवीएस मोटर कंपनी के अधिकारियों ने पुलिस की मदद से तीन दुकानदारों को उनके ब्रांड नेम से नकली सामान बेचते रंगेहाथ पकड़ा। तीनों के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट में मुकदमा लिखा गया है।

कंपनी को शिकायत मिली थी कि हाथरस में उनका ब्रांड नेम इस्तेमाल कर नकली सामान धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। शिकायत पर कंपनी के एरिया मैनेजर मोहम्मद मुजीब खान, ऑपरेशन मैनेजर सतीशचंद्र व इन्वेस्टीगेटर हितेंद्र शर्मा व धर्मेन्द्र सिंह मंगलवार को शहर में पहुंचे। यहां पहले एक लोकल व्यक्ति को सामान खरीदने के लिए सासनी गेट चौराहा स्थित ऑटो पार्ट्स की दुकानों पर भेजा। दुकानदारों ने उस व्यक्ति को टीवीएस के नाम से नकली सामान ही दिया। इसके बाद टीम कोतवाली सदर पुलिस के साथ इन दुकानों पर छापा मारने पहुंची। टीम के पहुंचते ही दुकानदारों में खलबली मच गई। सासनी गेट चौराहा पर लोगों की भीड़ जुट गई। सासनी गेट चौराहा स्थित सत्यम ऑटोमोबाइल, पूजा ऑटो मोबाइल्स व मां अंबे ऑटो पार्ट्स की दुकान पर छापेमारी हुई। यहां से तीनों दुकानदारों को हिरासत में लिया गया। ऑपरेशन मैनेजर सतीशचंद्र ने सत्यम ऑटोमोबाइल्स के संचालक राजेश निवासी विजय नगर, पूजा ऑटोमोबाइल्स के संचालक नरेंद्र निवासी भूरापीर व मां अंबे के मोनू अग्रवाल निवासी आवास विकास के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया। इनके पास से कंपनी के नाम के क्लच प्लेट, ब्रेक शू, चेन आदि सामान जब्त किया गया है।

नक्कालों की भरमार :

शहर में केवल ये तीन दुकानें ही हैं नहीं जहां नकली सामान बेचा जाता है। लगभग हर दुकान का यही हाल है। केवल ऑटो पार्ट्स ही नहीं, बल्कि जूते, कपड़े, कॉस्मेटिक आदि में भी मशहूर ब्रांड के नाम पर लोगों को नकली सामान बेचा जा रहा है।

Posted By: **Jagran**

Source: <https://www.jagran.com/uttar-pradesh/hathras-fake-goods-were-sold-at-auto-parts-shop-19545487.html>